



# राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

## हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

---

शिमला, शनिवार, 18 जनवरी, 2014 / 28 पौष, 1935

---

हिमाचल प्रदेश सरकार

राज्य निर्वाचन आयोग हिमाचल प्रदेश

**STATE ELECTION COMMISSION HIMACHAL PRADESH**

मजीठा हाऊस शिमला-2, Majitha house-171002 Tel. 0177-2620152, 2620159, 2620154, Fax. 2620152

NOTIFICATION

*Shimla-2, the 16<sup>th</sup> January, 2014*

**No. SEC (3) 3/94-36-70.**—In supersession of Notification No SEC (3)3/94-3648-3688 dated 9th Sept. 2013 issued by the State Election Commission Himachal Pradesh and with reference to Notification No. Per (A-IV)B (6)-1/2013(Part) Dated 13<sup>th</sup> Jan. 2014 issued by the department of personnel (Apptt-iv) Government of Himachal Pradesh, Dr. Devender Kumar Gupta, HPAS (1997) is hereby appointed as Secretary to the State Election Commission Himachal Pradesh with effect from 16-1-2014 (after noon).

By order ,  
Sd/-

*State Election Commissioner.*

## सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग

## अधिसूचना

शिमला-2, 14 जनवरी, 2013

**संख्या:आई0पी0एच0-बी(एच)1-29/2013-ऊना.**—यतः राज्यपाल हिमाचल प्रदेश को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः उप महाल जरेई मैहतपुर तहसील व जिला ऊना में मल निकासी योजना सैपटिक टैंक एफ के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इस से सम्बन्धित हैं, या हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने तथा सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः सभी अन्य कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस दिनों की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू-अर्जन समाहर्ता, कांगड़ा हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है।

## विस्तृत विवरणी

जिला	तहसील	गांव	खसरा नं०	क्षेत्र/हैक्टर में
ऊना	ऊना	जरेई मैहतपुर	1076	0-02-52
			1077	0-00-56
			1078 / 2	0-00-38
			1080	0-01-44
			1106	0-01-20
			1110	0-01-98
			1111	0-00-95
			किता-7	0-09-03

आदेश द्वारा,  
हस्ताक्षरित/—  
अतिरिक्त मुख्य सचिव (सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य)।

न्यायालय श्री जितेन्द्र कंवर (हि०प्र०से०), उप-मण्डल दण्डाधिकारी, भरमौर, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

श्रीमती तृप्ता देवी पत्नी श्री गुरमित सिंह, निवासी गांव ग्रीमा, डा० ग्रीमा, तहसील भरमौर, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्रीमती तृप्ता देवी पत्नी श्री गुरमित सिंह, निवासी ग्रीमा, डा0 ग्रीमा, तहसील भरमौर, जिला चम्बा ने प्रार्थना-पत्र के साथ शपथ-पत्र इस न्यायालय में दिया है कि उसके लड़के विकास सिंह की जन्म तिथि 29-12-2004 है, परन्तु उसका इन्द्राज ग्राम पंचायत ग्रीमा के अभिलेख में दर्ज नहीं करवा सकी है। अब दर्ज करने बारे न्यायालय से अनुरोध किया है।

अतः इस इशतहार द्वारा सर्वसाधारण एवं आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त विकास सिंह का नाम व जन्म तिथि पंचायत अभिलेख ग्रीमा में दर्ज करने बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह अपना उजर/एतराज असालतन या वकालतन इशतहार जारी होने के एक मास के भीतर इस न्यायालय में पेश कर सकता है अन्यथा आगामी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

इशतहार आज दिनांक 19-12-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

जितेन्द्र कंवर,  
उप-मण्डल दण्डाधिकारी,  
भरमौर, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

-----

ब अदालत डॉ0 सुरेन्द्र सिंह ठाकुर, सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग, डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : 04/IX-A/2013

तारीख दायर : 12-4-2013

अग्रिम पेशी : 17-2-2014

श्री कश्मीरी लाल सुपुत्र श्री भीखो, निवासी गांव सराहदु, डाकघर नैनीखड्ड, तहसील भट्टियात, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश प्रार्थी।

बनाम

श्री चुनी लाल पुत्र श्री निक्कू, निवासी गांव कल्लर, डाकघर बगढार, तहसील डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश आदि प्रत्यार्थीगण।

प्रार्थना-पत्र बाबत तकसीम दावा बारा इशतहार।

उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में खाता-खतौनी नम्बर 11/13, खसरान कित्ता-18, तादादी 27-03-00 बीघा में हिस्सा अलग करवाने हेतु अधोहस्ताक्षरी की अदालत में तकसीम प्रार्थना-पत्र मय अन्य कागजात गुजारे हैं। लेकिन प्रतिवादी नम्बर 4, श्री राम लाल को बार-बार समन भेजे गए, लेकिन समनों की तामील साधारण तरीके से नहीं हो पा रही है।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया राजपत्र, हिमाचल प्रदेश द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थी द्वारा गुजारे गए तकसीम दावा बारा, यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या बकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 17-2-2014 तक हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है अन्यथा गैर-हाजिरी की सूरत में तकसीम करने के आदेश दे दिए जाएंगे।

आज दिनांक 27-12-2013 को मेरे हस्ताक्षर व अदालत मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

सुरेन्द्र सिंह ठाकुर,  
सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग,  
डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत डॉ० सुरेन्द्र सिंह ठाकुर, सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग, डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं० : 08/2013

तारीख दायर : 29-11-2013

अग्रिम पेशी : 17-2-2014

श्री राकेश महाजन सुपुत्र श्री राम नाथ, निवासी गांव व डाकघर बाथरी, तहसील डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

प्रत्यार्थीगण।

विषय.—प्रार्थना—पत्र बराए नाम दुरुस्ती बारा।

उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना—पत्र, ब्यान हल्की इस आशय से गुजारा है कि उसका सही नाम राकेश महाजन है जोकि ग्राम पंचायत बाथरी, आधार कार्ड व उसके बच्चों के स्कूल प्रमाण—पत्रों में सही दर्ज है। लेकिन महाल बाथरी जरेई के खाता खतौनी नम्बर 60/97 मिन, खसरा नम्बर 505/427/204, कित्ता 1, में उसका नाम राकेश कुमार दर्ज है जो गलत दर्ज है, जिसकी दुरुस्ती की जावे।

इस सम्बन्ध में विस्तृत रिपोर्ट गिरदावर कानूनगो बनीखेत से ली गई। रिपोर्ट गिरदावर कानूनगो बनीखेत नम्बर 675, दिनांक 28-11-2013 से पाया गया कि गिरदावर कानूनगो बनीखेत ने प्रार्थी का नाम दुरुस्त किए जाने की सिफारिश की है।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार राजपत्र हिमाचल प्रदेश सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के नाम दुरुस्ती बारे यदि किसी को कोई उजर—एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 17-2-2014 को हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर के नाम दुरुस्ती के आदेश दे दिए जाएंगे।

आज दिनांक 31-12-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

सुरेन्द्र सिंह ठाकुर,  
सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग,  
डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

-----

ब अदालत श्री सीता राम, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील लड—भड़ोल, जिला मण्डी (हि० प्र०)

मिसल नं० : 01/2014

तारीख मरजुआ : 4-1-2014

तारीख पेशी : 15-2-2014

श्री दलवीर खां पुत्र श्री मामदीन, निवासी गांव बीरू (बलोदू), डाकघर व तहसील लड—भड़ोल, जिला मण्डी (हि० प्र०) प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

प्रत्यार्थीगण।

विषय.—प्रार्थना—पत्र अधीन धारा 13 (3) जन्म तिथि पंचायत अभिलेख में दर्ज करवाने बारे।

उपरोक्त मुकद्दमा में श्री दलवीर खां पुत्र श्री मामदीन, निवासी गांव बीरू (बलोदू), डाकघर व तहसील लड—भड़ोल, जिला मण्डी (हि० प्र०) ने इस न्यायालय में अधीन धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण के

अन्तर्गत अपनी पुत्री आलीसा की जन्म तिथि 9-5-2007 ग्राम पंचायत दलेड़ के अभिलेख में दर्ज करने हेतु आवेदन-पत्र गुजार रखा है। प्रार्थी की पुत्री अलीसा की जन्म तिथि 9-5-2007 को गांव बीरू (बलोदू) में हुआ है जोकि ग्राम पंचायत दलेड़ में दर्ज नहीं करवाया है। प्रार्थी अपनी पुत्री की जन्म तिथि ग्राम पंचायत दलेड़ के अभिलेख में दर्ज करवाना चाहता है। जिसे ग्राम पंचायत दलेड़ के अभिलेख में दर्ज करने के आदेश दिए जावें।

अतः आम जनता को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थी की पुत्री की जन्म तिथि 9-5-2007 ग्राम पंचायत दलेड़ के अभिलेख में दर्ज करने बारे किसी प्रकार का उजर व एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 15-2-2014 को अपना उजर व एतराज न्यायालय में पेश कर सकते हैं। गैर-हाजरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक ..... को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

सीता रामा,  
कार्यकारी दण्डाधिकारी,  
लड-भडोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

-----

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील जोगिन्द्रनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

तारीख पेशी : 7-2-2014

श्रीमती श्यामा देवी पत्नी श्री परमा राम, निवासी गांव जिमजिमा, तहसील जोगिन्द्रनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश प्रार्थिन।

बनाम

आम जनता

फरीकदोयम।

प्रर्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्रीमती श्यामा देवी पत्नी श्री परमा राम, निवासी गांव जिमजिमा, तहसील जोगिन्द्रनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में आवेदन-पत्र गुजारा है कि प्रार्थिन का वास्तविक जन्म दिनांक 23-10-1961 है, लेकिन प्रार्थिन की जन्म तिथि ग्राम पंचायत जिमजिमा के जन्म एवं मृत्यु अभिलेख में केवल 1961 दर्ज है जो सही दर्ज नहीं है। जिसे वास्तविक जन्म तिथि 23-10-1961 दर्ज करने के आदेश पारित किए जावे।

अतः इशतहार राजपत्र के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त मुकद्दमा बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 7-2-2014 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन न्यायालय में हाजिर होकर अपने उजर/एतराज पेश करे अन्यथा गैर-हाजरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 6-12-2013 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
कार्यकारी दण्डाधिकारी,  
जोगिन्द्रनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील जोगिन्द्रनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

तारीख पेशी : 6-2-2014

श्रीमती नारकली पुत्री श्री कातमू राम, निवासी गांव खारसा, ग्राम पंचायत गुम्मा, तहसील जोगिन्द्रनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश प्राथिन।

बनाम

आम जनता

फरीकदोयम।

प्रथना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्रीमती नारकली पुत्री श्री कातमू राम, निवासी गांव खारसा, ग्राम पंचायत गुम्मा, तहसील जोगिन्द्रनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में आवेदन-पत्र गुजारा है कि प्राथिन का वास्तविक जन्म दिनांक 1-1-1969 है, लेकिन प्राथिन की जन्म तिथि ग्राम पंचायत गुम्मा के जन्म एवं मृत्यु अभिलेख में केवल 1969 दर्ज है। जो सही दर्ज नहीं है। जिसे वास्तविक जन्म तिथि 1-1-1969 दर्ज करने के आदेश पारित किए जावे।

अतः इशतहार राजपत्र के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त मुकद्दमा बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 6-2-2014 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन न्यायालय में हाजिर होकर अपने उजर/एतराज पेश करे अन्यथा गैर-हाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 6-1-2014 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / -  
कार्यकारी दण्डाधिकारी,  
जोगिन्द्रनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

**In the Court of Shri M. R. Bhardwaj (H.A.S.) Sub-Divisional Magistrate, Theog, District Shimla, Himachal Pradesh**

Shri Ram Lal s/o Shri Mani Ram, r/o Village Dumehar, P. O. Cheog, Tehsil Theog, District Shimla, Himachal Pradesh . . Applicant.

*Versus*

General Public

. . Respondent.

Application under section 13 (3) of Birth and Death Registration Act, 1969.

Whereas Shri Ram Lal s/o Shri Mani Ram, r/o Village Dumehar, P. O. Cheog, Tehsil Theog, District Shimla, Himachal Pradesh has moved an application stating there in that he could not registered the death of his aunty (Bua) Kani Devi d/o Shri Jagat Ram whose date of death is 10-1-1971 in the record of Gram Panchayat Cheog, Tehsil Theog.

Whereas, by this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection for these entries of the above mentioned name, may submit objection in writing in this court on or before 10-2-2014 failing which no objection will be entertained after expiry of said date.

Given under my hand and seal of the court on 10-1-2014.

Seal.

M. R. BHARDWAJ,  
Sub-Divisional Magistrate,  
Theog, District Shimla, Himachal Pradesh.

---

**In the Court of Shri M. R. Bhardwaj (H.A.S.) Sub-Divisional Magistrate, Theog, District Shimla, Himachal Pradesh**

Shri Suresh Kumar s/o Shri Paras Ram, r/o Village Furgua, P. O. Kiartoo, Tehsil Theog, District Shimla, Himachal Pradesh . . Applicant.

*Versus*

General Public

. . Respondent.

Application under section 13 (3) of Birth and Death Registration Act, 1969.

Whereas Shri Suresh Kumar s/o Shri Paras Ram, r/o Village Furgua, P. O. Kiartoo, Tehsil Theog, District Shimla, Himachal Pradesh has preferred an application before the undersigned for the registration of name of his son namely Sujal whose date of birth is 1-2-2009 in the record of Gram Panchayat Kathog, Tehsil Theog, District Shimla, Himachal Pradesh.

Whereas, by this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection for this entry as mentioned above name, may submit his objection in writing in this court on or before 10-2-2014 failing which no objection will be entertained after expiry of said date.

Given under my hand and seal of the court on 10-1-2014.

Seal.

M. R. BHARDWAJ,  
Sub-Divisional Magistrate,  
Theog, District Shimla, Himachal Pradesh.

---

**Before Shri Baldev Sharma, Executive Magistrate (Tehsildar), Kasauli, District Solan, Himachal Pradesh**

Case No. 1/2014      Date of Institution : 6-1-2014      Date of decision/Pending for 10-2-2014

Shri Ram Lal Yadav son of Shri Visheshwar Yadav, resident of Village Tipra (Puralator Colony), P. O. Parwanoo, Tehsil Kasauli, District Solan, Himachal Pradesh . . Applicant.

*Versus*

General public

.. Respondent.

Application under section 13 (3) of Birth and Death Registration Act, 1969.

Shri Ram Lal Yadav son of Shri Visheshwar Yadav, resident of Village Tipra (Purelator Colony), P. O. Parwanoo, Tehsil Kasauli, District Solan, Himachal Pradesh has moved an application before the undersigned under section 13 (3) of Birth and Death Registration Act, 1969 alongwith affidavits and other documents Stating Therein that his daughter and son namely Pooja Kumari and Aman Kumar Yadav born on 16-1-2009 and 5-8-2012 respectively at Village Tipra, P. O. Parwanoo, Tehsil Kasauli, District Solan, Himachal Pradesh but her date of birth could not be registered in the record of Gram Panchayat Taksal within stipulated period. Hence he prayed for passing necessary orders to the Registrar, Birth and Death Registration, Gram Panchayat Taksal, Tehsil Kasauli for entering the same in the birth and death records.

Therefore, by this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection for the registration of delayed of date of birth of Pooja Kumari and Aman Kumar Yadav daughter and son of applicant may submit their objections in writing in this court on or before 10-2-2014 at 10.00 A. M. failing which no objection will be entertained after expiry of date.

Given under my hand and seal of the court on this 6<sup>th</sup> day of Janaury, 2014.

Seal.

BALDEV SHARMA,  
*Executive Magistrate (Tehsildar),  
Kasauli, District Solan, Himachal Pradesh.*